



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 1982/माघ 26, 1903

No. 49]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 1982/MAGHA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1982

सां० कां० वि० 65(अ)/सां०ब०/ईख.—केंद्रीय सरकार, गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और उसके उपखण्ड (i) में वर्णित विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगठनों से और परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है और गन्ने की वार्षिक न्यूनतम कीमत 13.00 रुपए प्रति क्विंटल के आधार पर, जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम वसूली से बढ़ेगा है, जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वसूली की वृद्धि पर 15.2941 पैसा प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, तात्कालिक प्रभाव से और 30 सितम्बर, 1982 तक के लिए, इससे उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात पात्र प्रशिया वाले गन्ने के कारखाने के स्वामी द्वारा या उसके अधिकारी द्वारा उसके कारखाना द्वार पर या किसी अन्य केन्द्र पर गन्ना वर्ष 1981-82 के दौरान परिवर्तित गन्ने के लिए संदेय होगा किन्तु ऐसा उक्त आदेश के खंड 3क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहने हुए किया जाएगा और यह निर्देश देती है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सां०कां०नि० 544(अ)/भाव०ब०/गन्ना, तारीख 30 सितम्बर, 1981 की अनुसूची में, "कर्मिक"

शर्पक के अधीन, कमसेकम 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम सं०	कारखाने का नाम	गन्ने की रूपियों में प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत
----------	----------------	---

1.	श्रीमहादेवर, एस० एस० के० लिसि-टेड, कोलागल, जिन्ना मैसूर	14.68
----	---	-------

[सं० 3-5/81-एस० पी० बॉर्डर (डी० 11)]

सी० एन० रावधन,

संयुक्त सचिव, (गन्ना)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 1982

G.S.R. 65(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after further consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted, and on the basis of the basic minimum price of sugarcane

at Rs. 13.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, hereby re-fixes, with immediate effect, and until the 30th September, 1982, the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owner of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or his agents for sugarcane delivered at the gate of his factory or at any purchasing centre during the sugar year 1981-82, subject to the rebate payable, therefor, under clause 3A of the said Order, and directs that in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 544(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated the 30th September, 1981, in the

Schedule, under the heading 'Karnataka', Serial No. 19, and the entries relating thereto shall be omitted.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	minimum sugarcane price in rupees per quintal
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Mahadeshwara S.S.K. Ltd., Kollegal, District Mysore.	14.68

[No. 3-5/81-SPY (D11)]

C. N. RAGHAVAN, D. Secy. (Sugar)